



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2008/पौष 2, 1930

No. 666]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2008/PAUSA 2, 1930

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 872(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (छठवां संशोधन) नियम, 2008 है।
 - (2) ये नियम 15 फरवरी, 2009 को प्रवृत्त होंगे।
2. कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में, उपाबंध 'क' में—

(क) प्ररूप संख्या 21, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 21

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17(1), 17क, 79, 81(2), 81(4), 94क(2), 102(1), 107(3), 111(5), 141, 155, 167, 186, 391(2), 394(1), 397, 398, 445, 466, 481, 559 और 621क के अनुसरण में)

न्यायालय या कम्पनी विधि
बोर्ड की सूचना या किसी अन्य
सक्षम प्राधिकारी का आदेश

टिप्पणी - * चिन्हित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरें।

1. (क)* कम्पनी का निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या(एफसीआरएन)..... पहले से भरा

(ख) कम्पनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2. (क) कम्पनी का नाम

(ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या भारत में कारवार के प्रमुख स्थान का पता

(ग) *कम्पनी की ई-मेल पहचान.....

3. (क)* द्वारा पारित ओदश

(ख)* न्यायालय या कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) या कोई सक्षम प्राधिकारी का नाम

(ग)* अवस्थिति

(घ)* याचिका या आवेदन संख्या

(ङ) *आदेश संख्या

4. * आदेश पारित करने की (तारीख/मास/वर्ष)

5. (क) * कम्पनी अधिनियम की धाराएं जिनके अधीन आदेश पारित किया गया है

(ख) यदि अन्य, तो उल्लेख करें

6. *दिनों की संख्या जिसके अर्न्तगत रजिस्ट्रार को आदेश को फाइल किया गया (यथास्थिति, उपर्युक्त धाराओं में या न्यायालय के आदेश के निबंधनों में या कंपनी विधि बोर्ड के आदेश या सक्षम प्राधिकारी का आदेश के अनुसरण में फाइल किया हो)

7. *आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए न्यायालय या कंपनी विधि बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

8. *आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

9. वह निश्चित तारीख जिसमें रजिस्ट्रार को आदेश फाइल किया हुआ है (तारीख/मास/वर्ष)

10. अपराध के समन के मामले की दशा में, प्ररूप 61 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)(एस) का होना

11. समामेलन की दशा में, क्या कम्पनी द्वारा फाइल में प्ररूप अंतरक या अंतरिती के रूप में उल्लिखित किया है ☐ अंतरक ☐ अंतरिती

(क) अंतरिती कंपनी का ब्यौरा

सीआईएन पहले से भरा

नाम

समामेलन का नियतदिन (तारीख/मास/वर्ष)

(ख) अंतरक कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा

अंतरक कंपनी (कंपनियों) की संख्या

I. अंतरक कंपनी का प्रवर्ग

सीआईएन या एफसी आरएन या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संख्या पहले से भरा

नाम

समामेलन का नियतदिन (तारीख/मास/वर्ष)

प्ररूप 21 का एसआरएन

II. अंतरक कंपनी का प्रवर्ग

सीआईएन या एफसी आरएन या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संख्या पहले से भरा

नाम
 सम्मेलन का नियतदिन (तारीख/मास/वर्ष)
 प्ररूप 21 का एसआरएन.....

III. अंतरक कंणी का प्रवर्ग
 सीआईएन या एफसी आरएन या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संख्या पहले से भरा
 नाम
 सम्मेलन का नियतदिन (तारीख/मास/वर्ष)
 प्ररूप 21 का एसआरएन.....

IV. अंतरक कंणी का प्रवर्ग
 सीआईएन या एफसी आरएन या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संख्या पहले से भरा
 नाम
 सम्मेलन का नियतदिन (तारीख/मास/वर्ष)
 प्ररूप 21 का एसआरएन.....

V. अंतरक कंणी का प्रवर्ग
 सीआईएन या एफसी आरएन या कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत संख्या पहले से भरा
 नाम
 सम्मेलन का नियतदिन (तारीख/मास/वर्ष)
 प्ररूप 21 का एसआरएन.....

12. परिसमापन की दशा में, निम्नलिखित ब्यौरों का उपबंध करें

- (क) (i) धारा 445 के अधीन परिसमापन के प्रारंभ की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)
 (ii) आयकर स्थायी लेखा संख्या (आयकर पीएन)
 (iii) समापक का नाम
 (iv) समापक का पता

पंक्ति I

पंक्ति II

नगर

राज्य

देश

पिन कोड

(ख) वह तारीख जिस से परिसमापन की कार्यवाही धारा 466 के अधीन रोक दी गई है
..... (तारीख/मास/वर्ष)

(ग) धारा 481 के अधीन विघटन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

(घ) (i) धारा 559 के अधीन वह तारीख जिस को विघटन शून्य घोषित कर दिया है
..... (तारीख/मास/वर्ष)

(ii) धारा 394 के अधीन क्या आदेश विघटित कंपनी के संबंध में ☐ हाँ ☐ नहीं

(iii) यदि हां, तो अंतरक कंपनी के ध्यौरे दे जिसका विघटन शून्य घोषित कर दिया है ।

सीआइएन या एफसीआरएन पहले से भरा

नाम

समामेलन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

13. (क) सुसंगत प्ररूप का एसआरएन

(सुसंगत प्ररूप 8,10,17,18,21,23 या कोई अन्य प्ररूप का उल्लेख करें दें यदि लागू हो)

(ख) धारा 102 (1) के अधीन विशेष संकल्प की तारीख
(तारीख/मास/वर्ष)

14. *क्या शास्ति अंतर्वलित है या नहीं ☐ हां ☐ नहीं

यदि हाँ, शास्ति के संदाय का एसआरएन

संलग्नक

1. *न्यायालय के आदेश या कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश की प्रति संलग्न करें

2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

संलग्नकों की सूची

संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है ।

मुझे निदेशक बोर्ड के (तारीख/मास/वर्ष)..... के संकल्प के द्वारा इस प्ररूप करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

○ मैं यह और स्पष्ट करता हूँ कि अंतरक (कों) कंपनी के संबंध में अंतिम पांच वर्ष के तुलनपत्र और वार्षिक विवरणी कंपनी (आरओसी) के रजिस्ट्रार कार्यालय के साथ फाइल किया गया है ।

निम्न के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया गया

प्ररूप पर हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और निवेदित प्ररूप, व्यक्ति की विशिष्टियाँ

*नाम

हैसियत

*पदनाम

निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्या : या

प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पीएन, या

सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या आयकर पीएन (कम्पनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है अपना आयकर पीएन उद्धृत कर सकता है)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अभिलेखों से उपरोक्त विशिष्टियाँ (जिसके अर्न्तगत संलग्नक भी हैं) को सत्यापित कर लिया है

.....
और उन्हें सत्य और सही पाया है । मैं और यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप से पूर्ण रूप से संलग्न किया है ।

○ चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

○ लागत लेखपाल (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

○ कंपनी सचिव (पूर्ण कालिक व्यवसाय)

* क्या सहबद्ध या फैलो है ○ सहबद्ध

○ फेलो

* सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण पत्र की संख्या

उपांतरित करें

जांच प्ररूप करें

पूर्व समीक्षा

प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि; "

(ख) प्ररूप संख्या 23, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाए, अर्थात:-

प्ररूप 23 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192 के अनुसरण में)	संकल्प और करार (करारों) का रजिस्ट्रीकरण
--	---

टिप्पणी - * चिन्हित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरें।

1. (क) *कम्पनी का निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) पहले से भरा

(ख) कम्पनी की विश्व अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2. (क) कम्पनी का नाम

(ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी का ई-मेल पहचान.....

3. *निम्नलिखित का रजिस्ट्रीकरण

Oसंकल्प Oकरार Oधारा 192क के अधीन डाक मत संकल्प (संकल्पों)

4. सूचना भेजने की तारीख

(क) संकल्प (संकल्पों)..... (तारीख/मास/वर्ष)

(ख) डाक मत संकल्प (संकल्पों) (तारीख/मास/वर्ष)

5. पाश्चित करने की तारीख

(क) संकल्प (संकल्पों)..... (तारीख/मास/वर्ष)

(ख) डाक मत संकल्प (संकल्पों) (तारीख/मास/वर्ष)

6. संकल्प (संकल्पों) की संख्या जिसके लिए प्ररूप फाइल किया गया है

संकल्प का विवरण

I. (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा जिसके अंतर्गत संकल्प पारित किया गया है .

.....
(ख) संकल्प को पारित करने का उद्देश्य यदि अन्य
हो तो धारा और उद्देश्य का उल्लेख करें

(ग) संकल्प की विषय वस्तु.....

(घ) सूचीबद्ध कम्पनी की दशा में, क्या संकल्प डाक मत द्वारा पारित किया गया है
उल्लेख करें ☐ हाँ ☐ नहीं

(ङ) संकल्प को पारित करने वाले या इस पर सहमत होने वाले प्राधिकारी को दर्शित करें
☐ निदेशक बोर्ड ☐ शेयरधारक ☐ शेयरधारकों का वर्ग ☐ ऋणदाता

(च) क्या साधारण या विशेष संकल्प या अपेक्षित बहुमत के साथ
☐ साधारण संकल्प ☐ विशेष संकल्प ☐ अपेक्षित बहुमत

7. (क) उद्देश्य खंड में परिवर्तन की दशा में, क्या किसा कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप में
कोई परिवर्तन किया है ☐ हाँ ☐ नहीं

(ख) यदि हां, कंपनी के नये औद्योगिक क्रियाकलाप के मुख्य खंड का उल्लेख करें.....

मुख्य खंड का विवरण

.....

8. धारा 484 के अधीन स्वेच्छया परिसमापन की दशा में निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करें

(क) परिसमापन की रीति ☐ सदस्य ☐ लेनदार

(ख) परिसमापन के प्रारंभ की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

(ग) समापक (समापकों) की संख्या.....

I. आयकर स्थायी लेखा संख्या (आयकर-पीएन).....

(i) नाम.....

(ii) पता.....

पंक्ति I

पंक्ति II

नगर.....

राज्य

देश

पिन कोड

II. आयकर पीएन.....

नाम

पता

पंक्ति I

पंक्ति II

नगर

राज्य

देश.....

पिनकोड

9. करार का विवरण

(क) करार की तारीख..... (तारीख/मास/वर्ष)

(ख) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा जिसके अधीन करार किया गया है.....

(ग) करार करने का प्रयोजन

..... यदि अन्य है, धारा और प्रयोजन का उल्लेख करना

(घ) करार की विषयवस्तु

.....
.....
.....

(ङ) करार को अंगीकृत करने वाले प्राधिकारी को उपदर्शित करें

○ निदेशकों का बोर्ड ○ शेयरधारक

○ शेयरधारकों का वर्ग

○ लेनदार

10. प्ररूप 21 का सेवा अनुरोध संख्या (एसआर एन) (उद्देश्य खंड में परिवर्तन की दशा में)

.....

संलग्नक

1. धारा 173 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण की प्रति सहित प्रस्ताव की संकल्प(संकल्पों) की प्रति (प्रतियां) **संलग्न करें**
2. परिवर्तित संगम ज्ञापन **संलग्न करें**
3. परिवर्तित संगम अनुच्छेद **संलग्न करें**
4. करार की प्रति **संलग्न करें**
5. ऐच्छिक संलग्नक-यदि कोई हो **संलग्न करें**

संलग्नकों की सूची

संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्रारूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संकल्प (संकल्पों) या यहां फाइल किये गये करारों की प्रति (प्रतियां) या मूल की सत्य प्रति(प्रतियां) हैं।

मुझे इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करने और इसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प संख्या..
..... तारीख.....(तारीख/मास/वर्ष) के द्वारा अधिकृत किया गया है।

निम्न के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया गया

कम्पनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव या समापक

*पदनाम

समापक का नाम

.....
 *निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्या : या
 प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पीएन, या
 सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या आयकर पीएन (कम्पनी का सचिव जो
 आईसीएसआई का सदस्य नहीं है अपना आयकर पीएन उद्धृत कर सकता है)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अभिलेखों से उपरोक्त विशिष्टियाँ (संलग्नक सहित) को सत्यापित कर लिया है
 और उन्हें सत्य और सही पाया है । मैं और यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप से पूर्ण रूप से संलग्न किया है ।

○ चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या ○ लागत लेखपाल (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या
 ○ कंपनी सचिव (पूर्ण कालिक व्यवसाय)

*क्या सहबद्ध या फेलो है ○ सहबद्ध ○ फेलो

*सदस्यता संख्या या प्रैक्टिस प्रमाणपत्र की संख्या

सुधार करें जांच प्ररूप करें पूर्वसंवीक्षा करें प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर प्रस्तुतीकरण की पुष्टि, "

[फा. सं. 1/9/2008-सी.एल.-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-2 के खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में सा.का.नि. संख्या 432 तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	का.नि.आ. 2535	1.11.1956
2.	का.नि.आ. 3135	21.12.1956
3.	का.नि.आ. 237	19.1.1957
4.	का.नि.आ. 2105	29.1.1957
5.	का.नि.आ. 3038	28.9.1957
6.	का.नि.आ. 3867	7.12.1957
7.	सा.का.नि. 48	22.2.1958
8.	सा.का.नि. 723	23.8.1958
9.	सा.का.नि. 750	30.8.1958
10.	सा.का.नि. 1026	1.11.1958
11.	सा.का.नि. 14	3.1.1959
12.	सा.का.नि. 548	9.5.1959
13.	सा.का.नि. 1140	17.10.1959
14.	सा.का.नि. 1224	7.11.1959
15.	सा.का.नि. 1364	12.12.1959
16.	सा.का.नि. 220	27.2.1960
17.	सा.का.नि. 595	28.5.1960
18.	सा.का.नि. 195	18.2.1961
19.	सा.का.नि. 814	24.6.1961
20.	सा.का.नि. 1105	9.9.1961
21.	सा.का.नि. 1408	25.11.1961

22.	सा.का.नि. 653	12.5.1962
23.	सा.का.नि. 344	2.3.1963
24.	सा.का.नि. 628	13.4.1963
25.	सा.का.नि. 97	16.1.1965
26.	सा.का.नि. 822	12.6.1965
27.	सा.का.नि. 1570	30.10.1965
28.	सा.का.नि. 368	19.3.1966
29.	सा.का.नि. 421	18.3.1966
30.	सा.का.नि. 499	9.4.1966
31.	सा.का.नि. 743	21.5.1966
32.	सा.का.नि. 847	4.6.1966
33.	सा.का.नि. 1266	13.8.1966
34.	सा.का.नि. 130	20.1.1968
35.	सा.का.नि. 667	30.6.1973
36.	सा.का.नि. 327(अ)	10.6.1975
37.	सा.का.नि. 414(अ)	16.7.1975
38.	सा.का.नि. 2596	1.11.1975
39.	सा.का.नि. 2828	13.12.1975
40.	सा.का.नि. 154	31.1.1976
41.	सा.का.नि. 248(अ)	24.3.1976
42.	सा.का.नि. 627	14.5.1977
43.	सा.का.नि. 24(अ)	9.1.1979
44.	सा.का.नि. 1256	6.10.1979
45.	सा.का.नि. 555(अ)	4.9.1982
46.	सा.का.नि. 479(अ)	22.4.1988
47.	सा.का.नि. 694(अ)	10.6.1988
48.	सा.का.नि. 782(अ)	13.7.1988
49.	सा.का.नि. 908(अ)	7.9.1988
50.	सा.का.नि. 1032(अ)	26.10.1988
51.	सा.का.नि. 449 (अ)	17.4.1989
52.	सा.का.नि. 510(अ)	24.5.1990
53.	सा.का.नि. 795(अ)	18.9.1990

54.	सा.का.नि. 289(अ)	31.5.1991
55.	सा.का.नि. 614(अ)	3.10.1991
56.	सा.का.नि. 754(अ)	26.12.1991
57.	सा.का.नि. 312(अ)	6.3.1992
58.	सा.का.नि. 353(अ)	26.3.1992
59.	सा.का.नि. 484(अ)	11.5.1992
60.	सा.का.नि. 581 (अ)	27.8.1993
61.	सा.का.नि. 621 (अ)	24.9.1993
62.	सा.का.नि. 286(अ)	1.3.1994
63.	सा.का.नि. 598(अ)	28.7.1994
64.	सा.का.नि. 697(अ)	20.9.1994
65.	सा.का.नि. 283(अ)	21.3.1995
66.	सा.का.नि. 424(अ)	26.5.1995
67.	सा.का.नि. 251(अ)	21.6.1996
68.	सा.का.नि. 97(अ)	28.2.1997
69.	सा.का.नि. 126(अ)	1.3.1997
70.	सा.का.नि. 16(अ)	6.1.1999
71.	सा.का.नि. 23(अ)	12.1.1999
72.	सा.का.नि. 130(अ)	23.2.1999
73.	सा.का.नि. 788(अ)	29.11.1999
74.	सा.का.नि. 58(अ)	17.1.2000
75.	सा.का.नि. 363 (अ)	27.4.2000
76.	सा.का.नि. 638(अ)	26.7.2000
77.	सा.का.नि. 836(अ)	24.10.2000
78.	सा.का.नि. 24(अ)	15.01.2001
79.	सा.का.नि. 35(अ)	24.01.2001
80.	सा.का.नि. 51(अ)	31.01.2001
81.	सा.का.नि. 96(अ)	14.02.2001
82.	सा.का.नि. 330(अ)	07.05.2002
83.	सा.का.नि. 5(अ)	03.01.2003
84.	सा.का.नि. 479(अ)	12.06.2003
85.	सा.का.नि. 580(अ)	24.07.2003

86.	सा.का.नि. 56(अ)	10-02-2006
87.	सा.का.नि. 555(अ)	14-09-2006
88.	सा.का.नि. 399 (अ)	30-05-2007
89.	सा.का.नि. 500 (अ)	24-07-2007
90.	सा.का.नि. 720(अ)	16-11-2007
91.	सा.का.नि. 655(अ)	12-09-2008
92.	सा.का.नि. 788(अ)	14-11-2008
93.	सा.का.नि. 824(अ)	28-11-2008
94.	सा.का.नि. 835(अ)	04-12-2008
95.	सा.का.नि. 868(अ)	21-12-2008

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2008

G.S.R. 872(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely: —

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Sixth Amendment) Rules, 2008.
- (2) These rules shall come into force from 15th February, 2009.
2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in the Annexure 'A', -

(a) for Form 21, the following Form shall be substituted, namely:-

(c)

FORM 21

Notice of the court or the company law board order or any other competent authority

[Pursuant to section 17(1), 17A, 79, 81(2), 81(4), 94A(2), 102(1), 107(3), 111(5), 141, 155, 167, 186, 391(2), 394(1), 397, 398, 445, 466, 481, 559 and 621A of the Companies Act, 1956]

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company



(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company

(c) *e-mail ID of the company

3.(a) *Order passed by

(b) *Name of the court or company law board (CLB) or any other competent authority

(c) *Location

(d) *Petition or application number

(e) *Order number

4. *Date of passing the order (DD/MM/YYYY)

5.(a) *Section of the Companies Act under which order passed

(b) If others, mention

6. *Number of days within which order is to be filed with Registrar (To be entered pursuant to aforesaid sections or in terms of court order or CLB order or order of the competent authority, as the case may be)

7. *Date of application to court or CLB or the competent authority for issue of certified copy of order

(DD/MM/YYYY)

8. *Date of issue of certified copy of order

(DD/MM/YYYY)

9. Due date by which order is to be filed with Registrar

(DD/MM/YYYY)

10. In case of compounding of offence, enter Service request number (SRN)(s) of Form 61

11. In case of amalgamation, mention whether company filing the form is transferor or transferee ☐ Transferor ☐ Transferee

(a) Details of transferee company

CIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
Name	<input type="text"/>	
Appointed date of amalgamation	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY)

(b) Details of transferor company(s)

Number of transferor company(s)

I.

Category of the transferor company	<input type="text"/>	
CIN or FCRN or any other registration number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
Name	<input type="text"/>	
Appointed date of amalgamation	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY) SRN of Form 21 <input type="text"/>

II.

Category of the transferor company	<input type="text"/>	
CIN or FCRN or any other registration number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
Name	<input type="text"/>	
Appointed date of amalgamation	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY) SRN of Form 21 <input type="text"/>

III.

Category of the transferor company	<input type="text"/>	
CIN or FCRN or any other registration number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
Name	<input type="text"/>	
Appointed date of amalgamation	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY) SRN of Form 21 <input type="text"/>

IV.

Category of the transferor company	<input type="text"/>	
CIN or FCRN or any other registration number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
Name	<input type="text"/>	
Appointed date of amalgamation	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY) SRN of Form 21 <input type="text"/>

V.

Category of the transferor company	<input type="text"/>	
CIN or FCRN or any other registration number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pre-fill"/>
Name	<input type="text"/>	
Appointed date of amalgamation	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY) SRN of Form 21 <input type="text"/>

12. In case of winding up, provide the following details

(a) (i) Date of commencement of winding up under section 445 (DD/MM/YYYY)(ii) Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) (iii) Name of liquidator

(iv) Address of liquidator

Line I Line II City State Country Pin code (b) Date with effect from which winding up proceedings have been stayed under section 466 (DD/MM/YYYY)(c) Date of dissolution under section 481 (DD/MM/YYYY)(d)(i) Date with effect from which dissolution has been declared as void under section 559 (DD/MM/YYYY)(ii) Whether the order is in respect of company dissolved under section 394 ☐ Yes ☐ No

(iii) If yes, provide details of the transferor company whose dissolution has been declared as void

CIN or FCRN

Pre-fill

Name Date of amalgamation (DD/MM/YYYY)13.(a) SRN of relevant form

(Mention the SRN of relevant Form 8, 10, 17, 18, 21, 23 or any other form; if applicable)

(b) Date of special resolution under section 102(1) (DD/MM/YYYY)14. *Whether penalty involved or not ☐ Yes ☐ NoIf yes, SRN of payment of penalty

Attachments

1.*Copy of court order or company law board order or order by any other competent authority

Attach

2. Optional attachment(s) - if any

Attach

List of attachments

Remove attachment

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number dated
to sign and submit this form. (DD/MM/YYYY)

☐ I further confirm that the due balance sheets and annual returns for the last five years in respect of the transferee company have been filed with the office of the Registrar of Companies (RoC)

To be digitally signed by

Particulars of the person signing and submitting the form

*Name

Capacity

*Designation

Director identification number of the director or Managing Director; or
Income-tax PAN of the manager or liquidator; or
Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a
company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or ☐ Cost accountant (in whole-time practice) or
☐ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ☐ Associate ☐ Fellow

*Membership number or certificate of practice number

For office use only:

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

(b) for Form 23, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM 23

Registration of resolution(s) and agreement(s)

(Pursuant to section 192 of the Companies Act, 1956)

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company



(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c)*e-mail ID of the company

3.*Registration of ☐ Resolution(s) ☐ Agreement ☐ Postal ballot resolution(s) under section 192A

4. Date of dispatch of notice for passing of

(a) Resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

(b) Postal ballot resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

5. Date of passing of

(a) Resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

(b) Postal ballot resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

6. Number of resolution(s) for which the form is being filed

Details of the resolution

I. (a) Section of the Companies Act, 1956 under which passed

(b) Purpose of passing the resolution

If others, mention the section and purpose

(c) Subject matter of the resolution

(d) In case of listed company, mention whether resolution passed by postal ballot ☐ Yes ☐ No

(e) Indicate the authority passing or agreeing to the resolution

☐ Board of directors ☐ Shareholders ☐ Class of shareholders ☐ Creditors

(f) Whether ordinary or special resolution or with requisite majority

☐ Ordinary resolution ☐ Special resolution ☐ Requisite majority

7. (a) In case of alteration in object clause, whether there is any change in industrial activity of the company ☐ Yes ☐ No

(b) If yes, provide the main division of new industrial activity of the company

Description of the main division

8. In case of voluntary winding up under section 484, provide the following details

(a) Mode of winding up ☐ Members' ☐ Creditors'

(b) Date of commencement of winding up (DD/MM/YYYY)

(c) Number of liquidator(s)

Details of liquidator(s)

I. Income-tax permanent account number (Income-tax PAN)

Name

Address

Line I

Line II

City

State

Country

Pin code

II. Income-tax PAN

Name

Address

Line I

Line II

City

State

Country

Pin code

9. Details of the agreement

(a) Date of the agreement	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY)
(b) Section of the Companies Act, 1956 under which agreement made	<input type="text"/>	
(c) Purpose of entering into the agreement	<input type="text"/>	
If others, mention the section and purpose	<input type="text"/>	
(d) Subject matter of the agreement	<input type="text"/>	
(e) Indicate the authority adopting the agreement		
<input type="radio"/> Board of directors	<input type="radio"/> Shareholders	<input type="radio"/> Class of shareholders
<input type="radio"/> Creditors		

10. Service request number (SRN) of Form 21 (in case of alteration in object clause)

Attachments

1. Copy(s) of resolution(s) along with copy of explanatory statement under section 173
2. Altered memorandum of association
3. Altered articles of association
4. Copy of agreement
5. Optional attachment(s) - if any

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

List of attachments

Refer to attachment

Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete. It is also certified that copy of the resolution(s) or agreement(s) filed herewith is or are a true copy(s) of the original.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number dated
to sign and submit this form.

(DD/MM/YYYY)

To be digitally signed by

Managing Director or director or manager or secretary or
liquidator of the company

*Designation

Name of liquidator

*Director identification number of the director or Managing Director; or

Income-tax PAN of the manager or liquidator; or

Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary

(secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

☐ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow

☐ Associate

☐ Fellow

*Membership number or certificate of practice number

For office use only:

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

[F. No. 1/9/2008-C.L.-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 432 dated the 18th January, 1956 and subsequently amended vide the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	SRO 2535	1.11.1956
2.	SRO 3135	21.12.1956
3.	SRO 237	19.1.1957
4.	SRO 2105	29.1.1957
5.	SRO 3038	28.9.1957
6.	SRO 3867	7.12.1957
7.	GSR 48	22.2.1958
8.	GSR 723	23.8.1958
9.	GSR 750	30.8.1958
10.	GSR 1026	1.11.1958
11.	GSR 14	3.1.1959
12.	GSR 548	9.5.1959
13.	GSR 1140	17.10.1959
14.	GSR 1224	7.11.1959
15.	GSR 1364	12.12.1959
16.	GSR 220	27.2.1960
17.	GSR 595	28.5.1960
18.	GSR 195	18.2.1961
19.	GSR 814	24.6.1961
20.	GSR 1105	9.9.1961
21.	GSR 1408	25.11.1961
22.	GSR 653	12.5.1962
23.	GSR 344	2.3.1963
24.	GSR 628	13.4.1963
25.	GSR 97	16.1.1965
26.	GSR 822	12.6.1965

27.	GSR 1570	30.10.1965
28.	GSR 368	19.3.1966
29.	GSR 421	18.3.1966
30.	GSR 499	9.4.1966
31.	GSR 743	21.5.1966
32.	GSR 847	4.6.1966
33.	GSR 1266	13.8.1966
34.	GSR 130	20.1.1968
35.	GSR 667	30.6.1973
36.	GSR 327(E)	10.6.1975
37.	GSR 414(E)	16.7.1975
38.	GSR 2596	1.11.1975
39.	GSR 2828	13.12.1975
40.	GSR 154	31.1.1976
41.	GSR 248(E)	24.3.1976
42.	GSR 627	14.5.1977
43.	GSR 24(E)	9.1.1979
44.	GSR 1256	6.10.1979
45.	GSR 555(E)	4.9.1982
46.	GSR 479(E)	22.4.1988
47.	GSR 694(E)	10.6.1988
48.	GSR 782(E)	13.7.1988
49.	GSR 908(E)	7.9.1988
50.	GSR 1032(E)	26.10.1988
51.	GSR 449 (E)	17.4.1989
52.	GSR 510(E)	24.5.1990
53.	GSR 795(E)	18.9.1990
54.	GSR 289(E)	31.5.1991
55.	GSR 614(E)	3.10.1991
56.	GSR 754(E)	26.12.1991
57.	GSR 312(E)	6.3.1992
58.	GSR 353(E)	26.3.1992
59.	GSR 484(E)	11.5.1992
60.	GSR 581 (E)	27.8.1993
61.	GSR 621 (E)	24.9.1993
62.	GSR 286(E)	1.3.1994
63.	GSR 598(E)	28.7.1994
64.	GSR 697(E)	20.9.1994

65.	GSR 283(E)	21.3.1995
66.	GSR 424(E)	26.5.1995
67.	GSR 251(E)	21.6.1996
68.	GSR 97(E)	28.2.1997
69.	GSR 126(E)	1.3.1997
70.	GSR 16(E)	6.1.1999
71.	GSR 23(E)	12.1.1999
72.	GSR 130(E)	23.2.1999
73.	GSR 788(E)	29.11.1999
74.	GSR 58(E)	17.1.2000
75.	GSR 363 (E)	27.4.2000
76.	GSR 638(E)	26.7.2000
77.	GSR 836(E)	24.10.2000
78.	GSR 24(E)	15.01.2001
79.	GSR 35(E)	24.01.2001
80.	GSR 51(E)	31.01.2001
81.	GSR 96(E)	14.02.2001
82.	GSR 330(E)	07.05.2002
83.	GSR 5(E)	03.01.2003
84.	GSR 479(E)	12.06.2003
85.	GSR 580(E)	24.07.2003
86.	GSR 56(E)	10-02-2006
87.	GSR 555(E)	14-09-2006
88.	GSR 399 (E)	30-05-2007
89.	GSR 500 (E)	24-07-2007
90.	GSR 720(E)	16-11-2007
91.	GSR 655(E)	12-09-2008
92.	GSR 788(E)	14-11-2008
93.	GSR 824 (E)	28-11-2008
94.	GSR 835(E)	04-12-2008
95.	GSR 868(E)	22-12-2008